



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय, मुंबई
प्रेस विज्ञप्ति

विषय: श्री निर्मल सिंह राजू, अतिरिक्त एसपी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुंबई ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय मुख्यालय, पश्चिमी क्षेत्र मुंबई में सतर्कता जागरूकता पर एक आयोजित सत्र में संबोधित किया।

मुंबई: 31.10.2019

देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नेतृत्व में पूरे देश में 29 अक्टूबर, 2019 से 2 नवंबर, 2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम “ईमानदारी-एक जीवन शैली” है।

इस अवसर पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय मुख्यालय, पश्चिमी क्षेत्र मुंबई ने श्री निर्मल सिंह राजू, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुंबई के आर्थिक अपराध शाखा में अतिरिक्त एसपी को भाविप्रा के कार्मिकों के लिए सतर्कता जागरूकता पर आयोजित एक सत्र में संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक श्री ग. चंद्रमौली ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम पर अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए आमंत्रित अतिथि वक्ता श्री राजू का स्वागत किया। श्री निर्मल सिंह राजू ने “पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में” ईमानदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने प्रशासन पर सतर्कता के प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी कार्मिकों को अपने प्रशासनिक कामकाज में साफ सुथरा और पारदर्शी होने के लिए प्रेरित किया। इस सत्र में सभी विभाग प्रमुख तथा कार्मिकों ने भाग लिया।



कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभाग पश्चिमी क्षेत्र ,मुख्यालयमुंबई द्वारा जारी ,
जानकारी के लिए संपर्क करें

प्रबंधक - (.सी .सी)022-20880631, 29217404

प्रेस विज्ञप्ति सं .23 / 2019-2020